

अंतर-विद्यालयीन द्विआयामी वाद-विवाद प्रतियोगिता (Interschool Turncoat Debate)

कक्षा - IX - XII

हिंदी दिवस के अवसर पर द शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल द्वारा एक अन्तर्विद्यालयीन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।केवल एक ही विद्यार्थी को स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा । यह सूचना आपके ऑडिशन हेतु है जिसमें लगभग उन सभी नियमों का पालन किया जाएगा जो प्रतियोगिता हेतु लागू होंगे।

★ प्रतियोगिता - द्विआयामी (आभासी/वर्चुअल) वाद-विवाद प्रतियोगिता (Interschool Turncoat Debate)

★ कक्षा - नवीं से बारहवीं

★ ऑडिशन-कक्षा XI - XII ऑडिशन रूम 1, ता० 2-09-20, दोपहर 3:00 बजे

★ ऑडिशन-कक्षा IX - X ऑडिशन रूम 2, ता० 3-09-20, दोपहर 3:00 बजे

नियमावली-

1. यह आभासी (virtual) माध्यम से आयोजित प्रतियोगिता है। प्रत्येक प्रतिभागी को नियत समय पर लिंक से जुड़ने के बाद से प्रतियोगिता की समाप्ति तक कैमरे के सामने सतत उपस्थिति दर्शानी होगी ।

2. प्रत्येक प्रतिभागी को विषय के पक्ष एवं विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे। विषय मिलते ही सभी प्रतिभागियों को केवल 30 मिनट की अवधि (कैमरे के सामने) तैयारी हेतु दी जाएगी।

3. पहली प्रस्तुति का संकेत मिलते ही सभी को अपनी तैयारी बंद कर अन्य वक्ताओं को सुनना होगा।

4. वक्ता द्वारा हिंदी भाषा में ही प्रस्तुति दी जाए । हिंदी भाषा में प्रचलित शब्द न मिलने की स्थिति में ही अंग्रेजी भाषा के किसी पर्याय का प्रयोग किया जा सकता है।

5. प्रत्येक वक्ता को अधिकतम 4 मिनट की अवधि दी जाएगी। पक्ष में 2 मिनट अपने विचारों की प्रस्तुति के बाद घण्टी बजने पर उसे विपक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करना होगा। वक्ता को अपने विद्यालय का नाम गोपनीय रखना होगा ।

6. प्रतिभागियों का मूल्यांकन निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा -

- तथ्यात्मक परिशुद्धता
- तार्किक सुसंगति
- धाराप्रवाहिता
- उच्चारण की शुद्धता व हाव-भाव
- समग्र प्रभाव

7. प्रस्तुति के समय शरीर का ¼ हिस्सा दिखाई देना चाहिए।